



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 पौष 1933 (श0)

(सं0 पटना 818) पटना, वृहस्पतिवार, 29 दिसम्बर 2011

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

16 नवम्बर 2011

सं० 22/नि०सि०(सम०)—02—13/2011/1400—श्री रणविजय प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल सं० 2, झंझारपुर द्वारा कार्यालय परिसर में बाहरी तत्वों के साथ बैठकर मदिरापान करने, कार्यालय परिसर में आवास रखने एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली का उल्लंघन करने इत्यादि धोर कदाचार के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री रणविजय प्रसाद सिंह कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल सं० 2, झंझारपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्री सिंह का मुख्यालय मुख्य अभियन्ता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, भागलपुर निर्धारित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4. विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
भरत झा,  
सरकार के उप—सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 818-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>